



DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION

Reference : MED 08/ T-51

Date : 27 May 2022

TECHNICAL COMMITTEE : Mining Techniques And Equipment, MED 08

To,

All concerned

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the Mining Techniques And Equipment Sectional Committee, MED 08. Please [click here](#) to view the document.

Document Number : MED 08 (19661) WC

Title of the document : WINDING IN MINES SHEAVES CAST SPECIFICATION Second Revision of IS 9239

Document Type : Revision of Indian Standard (IS 9239 : 1999)

This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:

1) This standard covers the requirements for cast sheaves and bearing blocks for winding in mines using locked coil ropes of different sizes.

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

Last date for sharing the comments is : 26 July 2022

The comments should be shared in the prescribed template through this portal only; and the comments so received shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at med@bis.gov.in to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

Yours faithfully,
(RAJNEESH KHOSLA)
Head (Mechanical Engineering Department)
Email: med@bis.gov.in



व्यापक परिचालन में मसौदा(दे)

हमारा सन्दर्भ : MED 08/ T-51

दिनांक : 27-05-2022

तकनीकी समिति : Mining Techniques And Equipment Sectional Committee, MED 08

प्राप्तकर्ता : रूचि रखने वाले सभी निकाय

महोदय/या,

निम्नलिखित मसौदा तैयार किया गया है :

प्रलेख संख्या : MED 08 (19661) WC

शीर्षक : WINDING IN MINES SHEAVES CAST SPECIFICATION Second Revision of IS 9239

कृपया इस/इन मानक(को)/संशोधन(नो) के मसौदे(दो) का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि ये मानक(को) के संशोधन(नो) के रूप में प्रकाशित हो तो इन पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा कारोबार में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि : 26 July 2022

सम्मतियाँ, यदि कोई हों तो, कृपया यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऊपर दी गयी अंतिम तिथि तक दर्ज कराएं।

यह/ये प्रलेख भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर भी उपलब्ध है/हैं।

धन्यवाद।

भवदीय/भवदिया,
विभाग प्रमुख का नाम : RAJNEESH KHOSLA
(Mechanical Engineering Department)
ई-मेल : med@bis.gov.in